

उत्तराखण्ड शासन  
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग  
संख्या 690/XXIV(1)/न0सू0अनु0/149/2017 T.C.II  
देहरादून: दिनांक 30 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000-01 से तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्ष 2009-10 से भारत सरकार के प्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में संचालित हैं। वर्तमान में दोनों कार्यक्रमों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में व्ययभार वहन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D.O. No.2-16/2017-EE-3 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत करायी जा रही गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों के सुनियोजित उपयोग एवं व्यय भार को कम करने के दृष्टिगत राज्य एवं जनपद स्तर पर दोनों सोसायटी के एकीकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् को यथावत् रखते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का इसमें विलय किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु गठित सोसायटी) की नियमावली के बिन्दु-4 (Objects) के अनुसार माध्यमिक स्तर पर संचालित होने वाले केंद्र सहायित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा बिन्दु-5 (Functions) में भी माध्यमिक स्तर पर संचालित क्रियाकलापों को समाहित किया जायेगा।

अतएव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् में एतद्वारा विलय किया जाता है।


(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव

संख्या 690 (1)/XXIV(1)/न0सू0अनु0/149/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 4- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को उनके पत्रांक/ अ0रा0प0नि0/1239/प्रशा0-नवीन ढाँचा/2017-18 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के क्रम में।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(दिनेश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव